



Arushi

13 Sep 1994

08:40 PM

Jammu

Model: Web-MyKundli

Order No: 121564301

सूचना

ज्योतिष एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत ग्रहों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके प्रभावों की भविष्यवाणी करने हेतु ग्रहों की स्थिति एवं इसके बल की गणना की जाती है। जन्मपत्रिकाओं की गणना अति सटीक है जिसमें बिल्कुल सही रेखांश प्रयुक्त हुए हैं। सामान्य तौर पर इसमें चित्रापक्षीय अयनांश का प्रयोग किया जाता है जबतक कि आप दूसरे अयनांश का विकल्प न मांगें।

कम्प्यूटर जन्मपत्रिकाएं मुख्य रूप से पाराशरी पद्धति पर आधारित है। हालांकि इसमें ताजिक पद्धति, जैमिनी पद्धति, कृष्णमूर्ति पद्धति, प्रश्नशास्त्र एवं पाश्चात्य पद्धतियों का भी ज्योतिषीय गणना में मिश्रण किया गया है। फलादेश मुख्य रूप से विभिन्न प्राचीन शास्त्रों जैसे बृहत् पराशर, होराशास्त्र, मानसागरी, सारावली, जातकभरणम, बृहत् जातक, फलदीपिका, जातक पारिजात के अनुरूप, साथ ही अपने अनुभवों का भी समावेश करके बनाया गया है। फिर भी, ज्योतिष का मार्गदर्शन लेकर हम अपने भविष्य का संकेत मात्र प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा ही यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आनेवाले समय में क्या घटित होगा ?

यह जन्मपत्रिका जन्म तिथि, जन्म समय एवं जन्म स्थान पर आधारित है जो कि जातक ने हमें उपलब्ध कराया है। अतः आंकड़ों की सटीकता से संबंधित हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ज्योतिषीय गणना एवं फलादेश जातक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के ऊपर आधारित है। जन्मपत्रिका में दिए गए फलादेश जातक के लिए सिर्फ संकेत मात्र है जिस पर जातक को सावधानीपूर्वक अमल करना चाहिए न कि हूबहू जैसा फलादेश में कहा गया है, बिना सोचे समझे उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। जन्मपत्रिका के विभिन्न पृष्ठों में दी गयी सूचनाएं किसी भी प्रकार के विवाद अथवा वैधानिक कार्यवाही के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः जातक की स्वयं की कार्यवाही से उत्पन्न हुए किसी भी क्षति के लिए हम उत्तरदायी नहीं है।

लिंग _____: पुल्लिंग
जन्म तिथि _____: 13/09/1994
दिन _____: मंगलवार
जन्म समय _____: 20:40:00 घंटे
इष्ट _____: 36:08:27 घटी
स्थान _____: Jammu
राज्य _____: Jammu and Kashmi
देश _____: India

अक्षांश _____: 32:42:00 उत्तर
रेखांश _____: 74:52:00 पूर्व
मध्य रेखांश _____: 82:30:00 पूर्व
स्थानिक संस्कार _____: -00:30:32 घंटे
ग्रीष्म संस्कार _____: 00:00:00 घंटे
स्थानिक समय _____: 20:09:28 घंटे
वेलान्तर _____: 00:03:55 घंटे
साम्पातिक काल _____: 19:38:59 घंटे
सूर्योदय _____: 06:12:37 घंटे
सूर्यास्त _____: 18:39:58 घंटे
दिनमान _____: 12:27:21 घंटे
सूर्य स्थिति(अयन) _____: दक्षिणायन
सूर्य स्थिति(गोल) _____: उत्तर
ऋतु _____: शरद
सूर्य के अंश _____: 26:48:52 सिंह
लग्न के अंश _____: 12:08:01 मेष

अवकहड़ा चक्र

लग्न-लग्नाधिपति _____: मेष - मंगल
राशि-स्वामी _____: धनु - गुरु
नक्षत्र-चरण _____: मूल - 4
नक्षत्र स्वामी _____: केतु
योग _____: आयुष्मान
करण _____: कौलव
गण _____: राक्षस
योनि _____: श्वान
नाड़ी _____: आद्य
वर्ण _____: क्षत्रिय
वश्य _____: मानव
वर्ग _____: मूषक
युँजा _____: अन्त्य
हंसक _____: अग्नि
जन्म नामाक्षर _____: भी-भीमा
पाया(राशि-नक्षत्र) _____: रजत - ताम्र
सूर्य राशि(पाश्चात्य) _____: कन्या

ShriSidhesavarii jyotiske kendra

Panjabi colony shamgarh dist mandaur M. P. 458883

9669569563

ramchranvyass5gmail. com

पंचांग

दादा का नाम _____ :
पिता का नाम _____ :
माता का नाम _____ :
जाति _____ :
गोत्र _____ :

कैलेंडर	वर्ष	मास	तिथि/प्रविष्टे
राष्ट्रीय	शक : 1916	भाद्रपद	22
पंजाबी	संवत : 2051	भाद्रपद	29
बंगाली	सन् : 1401	भाद्रपद	27
तमिल	संवत : 2051	आवनी	28
केरल	कोल्लम : 1170	चिंगम	28
नेपाली	संवत : 2051	भाद्रपद	28
चैत्रादि	संवत : 2051	भाद्रपद	शुक्ल 9
कार्तिकादि	संवत : 2051	भाद्रपद	शुक्ल 9

पंचांग

सूर्योदय कालीन तिथि _____ : 9
तिथि समाप्ति काल _____ : 26:40:29
जन्म तिथि _____ : 9
सूर्योदय कालीन नक्षत्र _____ : मूल
नक्षत्र समाप्ति काल _____ : 23:39:11 घंटे
जन्म योग _____ : मूल
सूर्योदय कालीन योग _____ : आयुष्मान
योग समाप्ति काल _____ : 23:12:49 घंटे
जन्म योग _____ : आयुष्मान
सूर्योदय कालीन करण _____ : बालव
करण समाप्ति काल _____ : 15:23:21 घंटे
जन्म करण _____ : कौलव
भयात _____ : 50:28:06
भभोग _____ : 57:56:02
भोग्य दशा काल _____ : केतु 0 वर्ष 10 मा 23 दि

घात चक्र

मास _____ : श्रावण
तिथि _____ : 3-8-13
दिन _____ : शुक्रवार
नक्षत्र _____ : भरणी
योग _____ : वज्र
करण _____ : तैतिल
प्रहर _____ : 1
वर्ग _____ : मार्जार
लग्न _____ : धनु
सूर्य _____ : तुला
चन्द्र _____ : मीन
मंगल _____ : वृश्चिक
बुध _____ : सिंह
गुरु _____ : धनु
शुक्र _____ : कुम्भ
शनि _____ : कन्या
राहु _____ : कुम्भ

ShriSidhesavarii jyottishe kendra


Panjabi colony shamgarh dist mandaur M. P. 458883

9669569563


ramchranvyass5gmail. com

जन्म कुण्डली

लग्न कुण्डली



चन्द्र कुण्डली



ShriSidhesavarii jyotische kendra

Panjabi colony shamgarh dist mandaur M. P. 458883

9669569563

ramchranvyass5gmail. com

लग्न कुण्डली और दशा

लग्न कुंडली

	के ल		मं
श			
			सू
चं		रा गु शु	बु

लग्न कुंडली

	के ल		
मं			श
सू		शु गु रा	चं

विंशोत्तरी
केतु 0वर्ष 10मा 23दि
केतु

13/09/1994

07/08/2108

केतु	07/08/1995
शुक्र	07/08/2015
सूर्य	06/08/2021
चन्द्र	07/08/2031
मंगल	07/08/2038
राहु	06/08/2056
गुरु	06/08/2072
शनि	07/08/2091
बुध	07/08/2108

योगिनी

उल्का 0वर्ष 9मा 6दि

उल्का

21/06/2025

21/06/2031

उल्का	21/06/2026
सिद्धा	21/08/2027
संकटा	20/12/2028
मंगला	19/02/2029
पिंगला	21/06/2029
धान्या	20/12/2029
भ्रामरी	21/08/2030
भद्रिका	21/06/2031

ShriSidhesavarii jyottishe kendra

Panjabi colony shamgarh dist mandaur M. P. 458883

9669569563

ramchranvyass5gmail. com


ग्रह स्पष्ट तथा उनकी स्थिति

ग्रह	व	अ	राशि	अंश	गति	नक्षत्र	पद	नं.	रा	न	अं.	स्थिति
लग्न			मेष	12:08:01	485:20:15	अश्विनी	4	1	मंगल	केतु	बुध	---
सूर्य			सिंह	26:48:52	00:58:25	उ०फाल्गुनी	1	12	सूर्य	सूर्य	सूर्य	स्वराशि
चंद्र			धनु	11:37:32	13:44:11	मूल	4	19	गुरु	केतु	बुध	सम राशि
मंगल			मिथु	23:50:17	00:36:34	पुनर्वसु	2	7	बुध	गुरु	शनि	शत्रु राशि
बुध			कन्या	20:01:37	01:21:55	हस्त	4	13	बुध	चंद्र	केतु	स्वराशि
गुरु			तुला	18:04:36	00:10:23	स्वाति	4	15	शुक्र	राहु	सूर्य	शत्रु राशि
शुक्र			तुला	10:58:11	00:45:55	स्वाति	2	15	शुक्र	राहु	शनि	मूलत्रिकोण
शनि	व		कुंभ	14:19:28	00:04:24	शतभिषा	3	24	शनि	राहु	बुध	मूलत्रिकोण
राहु	व		तुला	22:43:34	00:01:49	विशाखा	1	16	शुक्र	गुरु	शनि	मित्र राशि
केतु	व		मेष	22:43:34	00:01:49	भरणी	3	2	मंगल	शुक्र	शनि	मित्र राशि
हर्ष	व		धनु	28:44:29	00:00:54	उत्तराषाढ़ा	1	21	गुरु	सूर्य	मंगल	---
नेप	व		धनु	26:53:07	00:00:36	उत्तराषाढ़ा	1	21	गुरु	सूर्य	सूर्य	---
प्लूटो			वृश्चि	01:54:46	00:01:17	विशाखा	4	16	मंगल	गुरु	राहु	---
दशम भाव			धनु	29:08:05	--	उत्तराषाढ़ा	--	21	गुरु	सूर्य	मंगल	--


व - वकी स - स्थिर
अ - अस्त पू - पूर्ण अस्त
राहु : स्पष्ट

चित्रपक्षीय अयनांश : 23:47:12


लग्न-चलित



चन्द्र कुंडली



नवमांश कुंडली



ShriSidhesavarii jyotish kendra

Panjabi colony shamgarh dist mandasaur M. P. 458883

9669569563

ramchranvyass5gmail. com

चलित तथा निरयण भाव चलित

चलित अंश

भाव	भाव संधि	भाव मध्य
1	मीन 24:58:01	मेष 12:08:01
2	मेष 24:58:01	वृष 07:48:02
3	वृष 20:38:03	मिथुन 03:28:04
4	मिथुन 16:18:04	मिथुन 29:08:05
5	कर्क 16:18:04	सिंह 03:28:04
6	सिंह 20:38:03	कन्या 07:48:02
7	कन्या 24:58:01	तुला 12:08:01
8	तुला 24:58:01	वृश्चिक 07:48:02
9	वृश्चिक 20:38:03	धनु 03:28:04
10	धनु 16:18:04	धनु 29:08:05
11	मकर 16:18:04	कुम्भ 03:28:04
12	कुम्भ 20:38:03	मीन 07:48:02


निरयण भाव चलित

भाव	राशि	अंश
1	मेष	12:08:01
2	वृष	12:31:25
3	मिथुन	06:20:08
4	मिथुन	29:08:05
5	कर्क	25:11:54
6	सिंह	29:11:18
7	तुला	12:08:01
8	वृश्चिक	12:31:25
9	धनु	06:20:08
10	धनु	29:08:05
11	मकर	25:11:54
12	कुम्भ	29:11:18


तारा चक्र

जन्म	सम्पत्	विपत्	क्षेम	प्रत्यारि	साधक	वध	मित्र	अतिमित्र
मूल	पूर्वाषाढा	उत्तराषाढा	श्रवण	धनिष्ठा	शतभिषा	पू०भाद्रपद	उ०भाद्रपद	रेवती
अश्विनी	भरणी	कृत्तिका	रोहिणी	मृगशिरा	आर्द्रा	पुनर्वसु	पुष्य	आश्लेषा
मघा	पू०फाल्गुनी	उ०फाल्गुनी	हस्त	चित्रा	स्वाति	विशाखा	अनुराधा	ज्येष्ठा

चलित कुंडली



भाव कुंडली



ShriSidhesavarii jyotishhe kendra

Panjabi colony shamgarh dist mandaur M. P. 458883

9669569563

ramchranvyass5gmail.com

विंशोत्तरी दशा

भोग्य दशा काल : केतु 0 वर्ष 10 मास 23 दिन

केतु 7 वर्ष	शुक्र 20 वर्ष	सूर्य 6 वर्ष	चंद्र 10 वर्ष	मंगल 7 वर्ष
13/09/1994	07/08/1995	07/08/2015	06/08/2021	07/08/2031
07/08/1995	07/08/2015	06/08/2021	07/08/2031	07/08/2038
00/00/0000	शुक्र 06/12/1998	सूर्य 24/11/2015	चंद्र 07/06/2022	मंगल 03/01/2032
00/00/0000	सूर्य 07/12/1999	चंद्र 25/05/2016	मंगल 06/01/2023	राहु 20/01/2033
00/00/0000	चंद्र 06/08/2001	मंगल 30/09/2016	राहु 07/07/2024	गुरु 27/12/2033
00/00/0000	मंगल 06/10/2002	राहु 25/08/2017	गुरु 06/11/2025	शनि 05/02/2035
00/00/0000	राहु 06/10/2005	गुरु 13/06/2018	शनि 07/06/2027	बुध 02/02/2036
00/00/0000	गुरु 06/06/2008	शनि 26/05/2019	बुध 05/11/2028	केतु 01/07/2036
00/00/0000	शनि 07/08/2011	बुध 31/03/2020	केतु 06/06/2029	शुक्र 31/08/2037
13/09/1994	बुध 07/06/2014	केतु 06/08/2020	शुक्र 05/02/2031	सूर्य 06/01/2038
बुध 07/08/1995	केतु 07/08/2015	शुक्र 06/08/2021	सूर्य 07/08/2031	चंद्र 07/08/2038

राहु 18 वर्ष	गुरु 16 वर्ष	शनि 19 वर्ष	बुध 17 वर्ष	केतु 7 वर्ष
07/08/2038	06/08/2056	06/08/2072	07/08/2091	07/08/2108
06/08/2056	06/08/2072	07/08/2091	07/08/2108	14/09/2114
राहु 19/04/2041	गुरु 24/09/2058	शनि 10/08/2075	बुध 02/01/2094	केतु 03/01/2109
गुरु 12/09/2043	शनि 07/04/2061	बुध 19/04/2078	केतु 31/12/2094	शुक्र 05/03/2110
शनि 19/07/2046	बुध 13/07/2063	केतु 29/05/2079	शुक्र 31/10/2097	सूर्य 11/07/2110
बुध 05/02/2049	केतु 18/06/2064	शुक्र 28/07/2082	सूर्य 06/09/2098	चंद्र 09/02/2111
केतु 23/02/2050	शुक्र 17/02/2067	सूर्य 10/07/2083	चंद्र 05/02/2100	मंगल 08/07/2111
शुक्र 23/02/2053	सूर्य 07/12/2067	चंद्र 08/02/2085	मंगल 03/02/2101	राहु 26/07/2112
सूर्य 18/01/2054	चंद्र 07/04/2069	मंगल 20/03/2086	राहु 23/08/2103	गुरु 02/07/2113
चंद्र 20/07/2055	मंगल 13/03/2070	राहु 24/01/2089	गुरु 28/11/2105	शनि 11/08/2114
मंगल 06/08/2056	राहु 06/08/2072	गुरु 07/08/2091	शनि 07/08/2108	बुध 14/09/2114

- ❖ उपरोक्त दशा चंद्रमा के अंशो के आधार पर दी गई है। भयात भभोग के आधार पर दशा का भोग्यकाल केतु 0 वर्ष 10 मा 25 दि होता है।
- ❖ उपरोक्त तिथियां दशा के समाप्त होने का समय दर्शाती हैं। विंशोत्तरी दशा पूरे 120 वर्ष की बिना आयुनिर्णय के दी गई हैं।

ShriSidhesavarii jyottishe kendra

Panjabi colony shamgarh dist mandaur M. P. 458883

9669569563

ramchranvyass5gmail.com

विंशोत्तरी दशा - प्रत्यन्तर

चंद्र - शनि 06/11/2025 07/06/2027	चंद्र - बुध 07/06/2027 05/11/2028	चंद्र - केतु 05/11/2028 06/06/2029	चंद्र - शुक्र 06/06/2029 05/02/2031	चंद्र - सूर्य 05/02/2031 07/08/2031
शनि 05/02/2026 बुध 28/04/2026 केतु 01/06/2026 शुक्र 05/09/2026 सूर्य 04/10/2026 चंद्र 21/11/2026 मंगल 25/12/2026 राहु 22/03/2027 गुरु 07/06/2027	बुध 19/08/2027 केतु 18/09/2027 शुक्र 14/12/2027 सूर्य 09/01/2028 चंद्र 21/02/2028 मंगल 22/03/2028 राहु 07/06/2028 गुरु 15/08/2028 शनि 05/11/2028	केतु 18/11/2028 शुक्र 23/12/2028 सूर्य 03/01/2029 चंद्र 21/01/2029 मंगल 02/02/2029 राहु 06/03/2029 गुरु 04/04/2029 शनि 07/05/2029 बुध 06/06/2029	शुक्र 16/09/2029 सूर्य 16/10/2029 चंद्र 06/12/2029 मंगल 11/01/2030 राहु 12/04/2030 गुरु 02/07/2030 शनि 06/10/2030 बुध 01/01/2031 केतु 05/02/2031	सूर्य 14/02/2031 चंद्र 02/03/2031 मंगल 12/03/2031 राहु 09/04/2031 गुरु 03/05/2031 शनि 01/06/2031 बुध 27/06/2031 केतु 07/07/2031 शुक्र 07/08/2031
मंगल - मंगल 07/08/2031 03/01/2032	मंगल - राहु 03/01/2032 20/01/2033	मंगल - गुरु 20/01/2033 27/12/2033	मंगल - शनि 27/12/2033 05/02/2035	मंगल - बुध 05/02/2035 02/02/2036
मंगल 16/08/2031 राहु 07/09/2031 गुरु 27/09/2031 शनि 20/10/2031 बुध 11/11/2031 केतु 19/11/2031 शुक्र 14/12/2031 सूर्य 22/12/2031 चंद्र 03/01/2032	राहु 29/02/2032 गुरु 21/04/2032 शनि 20/06/2032 बुध 14/08/2032 केतु 05/09/2032 शुक्र 08/11/2032 सूर्य 27/11/2032 चंद्र 29/12/2032 मंगल 20/01/2033	गुरु 07/03/2033 शनि 30/04/2033 बुध 17/06/2033 केतु 07/07/2033 शुक्र 02/09/2033 सूर्य 19/09/2033 चंद्र 17/10/2033 मंगल 06/11/2033 राहु 27/12/2033	शनि 01/03/2034 बुध 28/04/2034 केतु 21/05/2034 शुक्र 28/07/2034 सूर्य 17/08/2034 चंद्र 20/09/2034 मंगल 13/10/2034 राहु 13/12/2034 गुरु 05/02/2035	बुध 29/03/2035 केतु 19/04/2035 शुक्र 18/06/2035 सूर्य 06/07/2035 चंद्र 05/08/2035 मंगल 26/08/2035 राहु 20/10/2035 गुरु 07/12/2035 शनि 02/02/2036
मंगल - केतु 02/02/2036 01/07/2036	मंगल - शुक्र 01/07/2036 31/08/2037	मंगल - सूर्य 31/08/2037 06/01/2038	मंगल - चंद्र 06/01/2038 07/08/2038	राहु - राहु 07/08/2038 19/04/2041
केतु 11/02/2036 शुक्र 07/03/2036 सूर्य 14/03/2036 चंद्र 27/03/2036 मंगल 05/04/2036 राहु 27/04/2036 गुरु 17/05/2036 शनि 09/06/2036 बुध 01/07/2036	शुक्र 10/09/2036 सूर्य 01/10/2036 चंद्र 05/11/2036 मंगल 30/11/2036 राहु 02/02/2037 गुरु 31/03/2037 शनि 06/06/2037 बुध 06/08/2037 केतु 31/08/2037	सूर्य 06/09/2037 चंद्र 17/09/2037 मंगल 24/09/2037 राहु 13/10/2037 गुरु 30/10/2037 शनि 20/11/2037 बुध 08/12/2037 केतु 15/12/2037 शुक्र 06/01/2038	चंद्र 23/01/2038 मंगल 05/02/2038 राहु 09/03/2038 गुरु 06/04/2038 शनि 10/05/2038 बुध 09/06/2038 केतु 21/06/2038 शुक्र 27/07/2038 सूर्य 07/08/2038	राहु 01/01/2039 गुरु 13/05/2039 शनि 16/10/2039 बुध 04/03/2040 केतु 30/04/2040 शुक्र 12/10/2040 सूर्य 30/11/2040 चंद्र 20/02/2041 मंगल 19/04/2041

ShriSidhesavarii jyottishe kendra

Panjabi colony shamgarh dist mandasaur M. P. 458883

9669569563

ramchranvyass5gmail.com

शुभाशुभ ज्ञानम्

शुभाशुभज्ञान आपको अपने मित्र एवं शत्रु वर्ग का बोध कराता है। मूलांक, भाग्यांक एवं मित्रांक से मित्रता एवं साझेदारी करने से लाभ तथा सहयोग की प्राप्ति होती है। साथ ही शुभ दिन एवं वर्ष उन्नति कारक तथा शुभ ग्रहों की दशाएं लाभदायक होती हैं। इसी प्रकार मित्रलग्न लाभदायक एवं मित्र राशि से घनिष्ठता होती है।

शुभरत्न धातु एवं रंग धारण करने से शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता बनी रहती है तथा भाग्य रत्न धारण करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। शुभ समय में कोई भी कार्य प्रारम्भ करने से उसमें इच्छित सफलता की प्राप्ति होती है। साथ ही इष्टदेव का ध्यान एवं जप से मानसिक शान्ति तथा सफलता मिलती है। शुभ पदार्थ अन्न, द्रव्य आदि का दान या व्यापार शुभ दिशा में करने से वांछित लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार शुभाशुभज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग शुभफलदायक सिद्ध हो सकता है।

मूलांक	4
भाग्यांक	9
मित्र अंक	1, 4, 6, 9
शत्रु अंक	3, 7, 8
शुभ वर्ष	22,31,40,49,58
शुभ दिन	गुरु, रवि, मंगल
शुभ ग्रह	गुरु, सूर्य, मंगल
मित्र राशि	मीन, सिंह
मित्र लग्न	कर्क, धनु, कुम्भ
अनुकूल देवता	हनुमान
शुभ रत्न	मूंगा
शुभ उपरत्न	संगमूंगी
भाग्य रत्न	पुखराज
शुभ धातु	ताम्र
शुभ रंग	रक्त
शुभ दिशा	दक्षिण
शुभ समय	सूर्योदय के बाद
दान पदार्थ	केसर, कस्तूरी, रक्तचन्दन
दान अन्न	मल्का
दान द्रव्य	घी

ShriSidhesavarii jyottishe kendra

Panjabi colony shamgarh dist mandaur M. P. 458883

9669569563


ramchranvyass5@gmail.com

रत्न चयन

रत्न जीवन में शुभत्व की वृद्धि के लिए धारण किए जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से, रत्न अपने ग्रह की राशियों को पूर्णमात्रा में मानव शरीर में प्रवाहित कर ग्रह प्रभाव की वृद्धि करते हैं। यही कारण है कि रत्न केवल शुभ ग्रहों का ही धारण किया जाता है। ग्रह शुभ माना जाता है यदि यह लग्न, त्रिकोण या केन्द्र में स्थापित हो या स्वामी हो। यह अशुभ होता है यदि यह त्रिक भाव से संबंधित हो। मित्रों की युति या दृष्टि भी इसकी शुभता बढ़ाती है। बाधक भाव का स्वामित्व शुभता कम कर देता है। चर लग्नों में एकादश, स्थिर में नवम व द्विस्वभाव में सप्तम भाव की बाधक संज्ञा है। उपरोक्त तथ्य रत्न चयन हेतु ग्रह की शुभता दर्शाते हैं।

नीचे जन्मकुण्डली में ग्रहों की शुभता को सारणी व ग्राफ में दर्शित किया गया है। साथ ही कौन सा ग्रह किस क्षेत्र में कार्य सिद्ध कर सकता है दिया गया है। विभिन्न दशाओं में विभिन्न रत्नों की शुभता भी नीचे तालिका में दी गई है। जिस ग्रह को 75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उसके रत्न हमें सर्वदा बिना दशा विचार के धारण करने चाहिए। जिन्हें 50-75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उन्हें कार्य क्षेत्र अनुसार व अनुकूल दशा में धारण करना चाहिए। जो रत्न केवल 25-50 प्रतिशत शुभता लिए हैं उनके रत्न केवल उनकी या उनके मित्रों की दशा में धारण करने चाहिए। अन्ततः जिन्हें 25 प्रतिशत से भी कम शुभता प्राप्त है वे ग्रह अपने लिए अशुभ ही समझें और उनके रत्नों को पहनने से बचना चाहिए।

रत्न	ग्रह	शुभता	क्षेत्र
माणिक्य	सूर्य	95%	सन्तति सुख
मोती	चंद्र	78%	भाग्योदय, सुख
नीलम	शनि	71%	धनार्जन, व्यावसायिक उन्नति
लहसुनिया	केतु	67%	स्वास्थ्य, पराक्रम
पुखराज	गुरु	66%	दम्पति, भाग्योदय, कम खर्च
मूंगा	मंगल	61%	पराक्रम, स्वास्थ्य, दुर्घटना से बचाव
गोमेद	राहु	59%	दम्पति
हीरा	शुक्र	50%	दम्पति, धन
पन्ना	बुध	3%	शत्रु व रोग, पराक्रम हानि



दशानुसार रत्न विचार

दशा	समाप्ति	माणिक्य	मोती	मूंगा	पन्ना	पुखराज	हीरा	नीलम	गोमेद	लहसुनिया
केतु	07/08/1995	82%	66%	67%	3%	66%	57%	58%	44%	80%
शुक्र	07/08/2015	82%	66%	61%	15%	66%	63%	77%	66%	73%
सूर्य	06/08/2021	100%	84%	67%	3%	72%	26%	58%	44%	55%
चंद्र	07/08/2031	100%	91%	61%	15%	66%	50%	71%	44%	55%
मंगल	07/08/2038	100%	84%	73%	0%	72%	50%	71%	44%	73%
राहु	06/08/2056	82%	66%	47%	3%	66%	57%	77%	72%	55%
गुरु	06/08/2072	100%	84%	67%	0%	78%	26%	71%	59%	67%
शनि	07/08/2091	82%	66%	47%	15%	66%	57%	83%	66%	55%
बुध	07/08/2108	100%	66%	61%	28%	66%	57%	71%	59%	67%

ShriSidhesavarii jyotishhe kendra

Panjabi colony shamgarh dist mandasaur M. P. 458883

9669569563

ramchranvyass5gmail.com

साढ़ेसाती विचार

चंद्रमा से जन्म कुंडली में जब गोचरवश शनि की स्थिति द्वादश, प्रथम एवं द्वितीय स्थान में होती है तो साढ़ेसाती कहलाती है। शनि की चंद्रमा से चतुर्थ एवं अष्टम भाव में स्थिति होने पर ढैया शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट देता है। लेकिन कई बार यह आश्चर्यजनक उन्नति भी प्रदान करती है। साढ़ेसाती का प्रभाव सात वर्ष एवं ढैया का प्रभाव ढई वर्ष रहता है।

सामान्यतया साढ़ेसाती मनुष्य के जीवन में तीन बार आती है। प्रथम बचपन में द्वितीय युवावस्था में तथा तृतीय वृद्धावस्था में आती है। प्रथम साढ़ेसाती का प्रभाव शिक्षा एवं माता-पिता पर पड़ता है। द्वितीय साढ़ेसाती का प्रभाव कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति एवं परिवार पर पड़ता है परंतु तृतीय साढ़ेसाती स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव करती है।

निम्नलिखित तालिका में साढ़ेसाती का समय तथा प्रत्येक ढैया का शुभाशुभ फल इंगित किया गया है।

प्रथम चक्र:

चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	02/06/1995-10/08/1995 16/02/1996-17/04/1998	-----
अष्टम स्थानस्थ ढैया	06/09/2004-13/01/2005 26/05/2005-01/11/2006 10/01/2007-16/07/2007	-----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	02/11/2014-26/01/2017 21/06/2017-26/10/2017	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	26/01/2017-21/06/2017 26/10/2017-24/01/2020	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	24/01/2020-29/04/2022 12/07/2022-17/01/2023	-----

द्वितीय चक्र:

चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	29/03/2025-03/06/2027 20/10/2027-23/02/2028	-----
अष्टम स्थानस्थ ढैया	13/07/2034-27/08/2036	-----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	11/12/2043-23/06/2044 30/08/2044-08/12/2046	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	08/12/2046-06/03/2049 10/07/2049-04/12/2049	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	06/03/2049-10/07/2049 04/12/2049-25/02/2052	-----

तृतीय चक्र:

चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	14/05/2054-02/09/2054 05/02/2055-07/04/2057	-----
अष्टम स्थानस्थ ढैया	24/08/2063-06/02/2064 09/05/2064-13/10/2065 03/02/2066-03/07/2066	-----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	05/02/2073-31/03/2073 23/10/2073-16/01/2076 11/07/2076-11/10/2076	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	16/01/2076-11/07/2076 11/10/2076-15/01/2079	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	15/01/2079-12/04/2081 03/08/2081-07/01/2082	-----

शनि का ढैया फल

ढैया के प्रकार

चतुर्थ स्थानस्थ ढैया
अष्टम स्थानस्थ ढैया
साढ़ेसाती प्रथम ढैया
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया
साढ़ेसाती तृतीय ढैया

फल

अशुभ
अशुभ
अशुभ
शुभ
शुभ

क्षेत्र

कम खर्च
सुख हानि
दुर्घटना
भाग्योदय
व्यावसायिक उन्नति

ShriSidhesavarii jyotishhe kendra

Panjabi colony shamgarh dist mandaur M. P. 458883

9669569563

ramchranvyass5gmail.com

साढ़ेसाती के उपाय

शनि की साढ़ेसाती के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिये दान, पूजन, व्रत, मंत्र आदि उपाय किये जा सकते हैं। इसके लिये शनिवार को काला कंबल, उड़द की दाल, काले तिल, चर्म-पादुका, काला कपड़ा, मोटा अनाज, तिल तथा लोहे का दान करना चाहिये। शनिदेव की पूजा एवं शनिवार का व्रत रखना चाहिये। उपवास के दिन उड़द की दाल से बनी वस्तु, चने, बेसन, काले तिल, काला नमक तथा फलों का ही सेवन करना चाहिये। साथ ही स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा शनि के निम्न मंत्र के 19000 जप संपन्न करवाने चाहिये।

ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः ।।

शनि की साढ़ेसाती में शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक शांति एवं समृद्धि, आर्थिक सुदृढ़ता तथा कार्यक्षेत्र में उन्नति के लिये निम्नलिखित महामृत्युंजय मंत्र के 125000 जप स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा करवाने चाहिये।

**ॐ त्र्यंबकम यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ।।**

वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित मंत्र के प्रतिदिन 108 जप किये जा सकते हैं।

ॐ हों जूं सः ॐ भूर्भुव स्वः ॐ ।।

शनि की साढ़ेसाती के शुभत्व को बढ़ाने के लिये शनिवार के दिन आप 5 1/4 रत्ती का नीलम रत्न पंचधातु में (सोना, चांदी, तांबा, लोखंड, जस्ता) या घोड़े की नाल या नाव की कील से निर्मित लोहे की अंगूठी धारण करें। लोहे की अंगूठी आप दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें।

अंगूठी शुक्ल पक्ष की शनिवार की सायं सूर्यास्त के समय धारण करें। पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अति शुभ हैं। उस दिन शनिवार का उपवास भी करना चाहिए। अंगूठी धारण करने से पूर्व इसे शुद्ध दूध एवं गंगाजल में स्नान कराना चाहिए तथा धूप आदि जलाकर शनि का पूजन करना चाहिए एवं निम्न मंत्र की एक माला या 108 बार जप करना चाहिए। नीलम मध्यमा उंगली में या गले में पेन्डन्ट बनाकर धारण करें।

ॐ शं शनैश्चराय नमः ।

अंगूठी धारण करने के पश्चात शनि की वस्तुओं का दान देना चाहिए। इससे शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आयेगी तथा आपकी सुख शांति एवं समृद्धि में वृद्धि होगी।

श्री हनुमान चालीसा एवं श्री हनुमान अष्टक का पाठ करना श्रेष्ठ है।

ShriSidhesavarii jyotish kendra

Panjabi colony shamgarh dist mandaur M. P. 458883

9669569563

ramchranvyass5@gmail.com

मांगलिक विचार

जब वर या कन्या की कुंडली में मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम तथा द्वादश भाव में हो तो मांगलिक दोष कहलाता है। यथोक्तम्

**लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे ।
स्त्री भर्तुर्विनाशं च भर्ता च स्त्री विनाशनम् ।**

मांगलिक दोष लग्न से अधिक प्रबल माना जाता है लेकिन चन्द्रमा से इसका दोष लग्न की अपेक्षा अल्प होता है। यदि शास्त्रानुसार वर एवं कन्या का मांगलिक दोष भंग हो जाता है तो उनका दाम्पत्य जीवन सुख एवं प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत होता है। इसके विपरीत बिना दोष भंग हुए मांगलिक वर-कन्याओं को जीवन में कई प्रकार की अनावश्यक समस्याओं तथा व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। अतः विवाह से पूर्व शुद्ध कुण्डली मिलान से इस दोष का उचित निवारण करके ही दाम्पत्य जीवन प्रारम्भ करना चाहिए जिससे जीवन में शान्ति तथा सम्पन्नता बनी रहे।

आपके जन्म काल में मंगल की स्थिति चन्द्रकुंडली में सप्तम भाव में है अतः आप एक मांगलिक पुरुष हैं परन्तु शास्त्रानुसार आपके मंगल का दोष समाप्त हो जाता है। अतः ऐसे मंगल से आपको शुभ फल ही अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। आपकी पत्नी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा परन्तु स्वभाव में थोड़ी उग्रता अवश्य हो सकती है। मंगल के शुभ प्रभाव से आप जीवन में समस्त प्रकार से सुखेश्वर्य एवं धन धान्य को अर्जित करेंगे तथा सुख पूर्वक जीवन में इनका उपभोग करेंगे।

इस मंगल के प्रभाव से आपके विवाह में थोड़ा विलम्ब हो सकता है परन्तु विवाह में कोई विशेष बाधाएं या समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी। शान्ति पूर्वक आप का विवाह कार्य सम्पन्न होगा। आप दोनों का शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। विवाह के पश्चात दाम्पत्य जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत होगा। इसके अतिरिक्त आपके परस्पर भी सामान्यतया मधुर एवं प्रगाढ़ रहेंगे।

आपकी चन्द्र कुंडली में मंगल सप्तम भाव में स्थित है अतः इसके प्रभाव से आप सुयोग्य जीवन साथी प्राप्त करने में सफल रहेंगे। परस्पर अत्यंत ही प्रेम एवं सहयोग का भाव रहेगा जिससे आपका दाम्पत्य जीवन पूर्ण रूप से शांत तथा सुखी रहेगा। इस मंगल की दशम भाव पर दृष्टि होने से आप किसी उच्च पद को प्राप्त करने में सफल रहेंगे तथा समाज में पूर्ण मान सम्मान तथा ख्याति भी अर्जित करेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में सर्वदा यथोचित उन्नति होती रहेगी। प्रथम भाव पर मंगल की दृष्टि से शारीरिक स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा परन्तु स्वभाव में यदा कदा उग्रता का भाव विद्यमान होगा। द्वितीय भाव पर मंगल की दृष्टि से आप पारिवारिक सुख से सर्वदा युक्त रहेंगे सामान्यतया शान्ति पूर्वक परिवार का पालन करेंगे। विद्याध्ययन के क्षेत्र में भी आप सफल रहेंगे तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी आप समर्थ होंगे। इस प्रकार आपका जीवन पूर्ण शान्ति तथा सुख से व्यतीत होगा।

ShriSidhesavarii jyottishe kendra


Panjabi colony shamgarh dist mandasaur M. P. 458883

9669569563

ramchranvyass5gmail.com

अपने दाम्पत्य जीवन को अधिक सुखमय बनाने के लिए आपको किसी गैर मांगलिक या ऐसी मंगली कन्या से विवाह करना चाहिए जिसकी चन्द्रकुंडली में मंगल का दोष उचित नियमानुसार भंग हो रहा हो ऐसा उचित मिलान होने पर आप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति तथा सफलता अर्जित करेंगे। एक सौभाग्यशाली पुरुष होकर जीवन में धन धान्य एवं ऐश्वर्य से सुसम्पन्न रहेंगे। जीवन में आपको किसी भी आवश्यक एवं महत्वपूर्ण वस्तु का अभाव नहीं रहेगा। सभी भौतिक सुखों का आप आनंद पूर्वक उपभोग करेंगे।

इसके अतिरिक्त जिस कन्या की चन्द्रकुंडली में सप्तम भाव में ही मंगल हो उस कन्या से यदि आवश्यक हो तभी विवाह करना चाहिए अन्यथा यत्नपूर्वक उपेक्षा ही करनी चाहिए। क्योंकि समान भाव में स्थित मंगल जीवन साथी के लिए विशेष शुभ नहीं होता तथा दाम्पत्य जीवन में शारीरिक तथा अन्य प्रकार से अनावश्यक समस्याएं उत्पन्न होती रहेंगी जिससे आपका सुखी दाम्पत्य जीवन प्रभावित होगा। इसके अतिरिक्त अन्य भावों में यदि मंगल स्थित हो तो वह शुभ फल प्रदान करेगा तथा दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार से अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न नहीं होंगी अतः अच्छी तरह सोच विचार कर अन्तिम निर्णय लेना चाहिए जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार से परेशानी या असुविधा उत्पन्न न हो।



कालसर्प योग

अग्रे राहुरधः केतुः सर्वे मध्यगताः ग्रहाः ।
योगाऽयं कालसर्पाख्यो शीघ्रं तं तु विनाशय ॥

आगे राहु हो एवं नीचे केतु मध्य में सभी (सातों) ग्रह विद्यमान हो तो कालसर्प योग बनता है। द्वादश भावों में राहु की स्थिति के अनुसार काल सर्प योग मुख्यतः द्वादश प्रकार के होते हैं। वे हैं-

1. अनंत, 2. कुलिक, 3. वासुकि, 4 शङ्खपाल, 5. पद्म, 6. महापद्म, 7. तक्षक, 8. कर्कोटक, 9. शङ्खचूड, 10. घातक, 11. विषधर, 12. शेषनाग ।

यह योग उदित अनुदित भेद से दो प्रकार के होते हैं राहु के मुख में सभी सातों ग्रह ग्रसित हो जाएं तो उदित गोलाब्ध नामक योग बनता है एवं राहु की पृष्ठ में यदि सभी ग्रह हों तो अनुदितन गोलाब्ध नामक योग बनता है।

इस योग में उत्पन्न जातक को मानसिक अशांति, धनप्राप्ति में बाधा, संतान अवरोध एवं गृहस्थी में प्रतिपल कलह के रूप में प्रकट होता है। प्रायः जातक को बुरे स्वप्न आते हैं। कुछ न कुछ अशुभ होने की आशंका मन में बनी रहती है। जातक को अपनी क्षमता एवं कार्यकुशलता का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, कार्य अक्सर देर से सफल होते हैं। अचानक नुकसान एवं प्रतिष्ठा की क्षति इस योग के लक्षण हैं।

जातक के शरीर में वात पित्त त्रिदोषजन्य असाध्य रोग अकारण उत्पन्न होते हैं। ऐसे रोग जो प्रतिदिन क्लेश (पीडा) देते हैं तथा औषधि लेने पर भी ठीक नहीं होते हों, काल सर्प योग के कारण होते हैं। काल सर्प योग के उपाय इन कष्टों से राहत के लिये आवश्यक हो जाते हैं।

जातक पर काल सर्प योग का प्रभाव

आपकी जन्मपत्रिका में काल सर्प योग विद्यमान नहीं है। अतः आपको इस योग के लिए शांति आदि की आवश्यकता नहीं है एवं आप पूर्ण रूप से सुखी जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

पितृदोष विचार

पितृदोष क्या है ?

हमारे पूर्वज या परिवार के सदस्य मृत्योपरान्त पितृ संज्ञा प्राप्त करते हैं। पितृ हमारे और भगवान के बीच की कड़ी होते हैं। यदि ये प्रसन्न होते हैं तो जातक सुखी जीवन भोगता है, लेकिन यदि किसी कारणवश ये अप्रसन्न हो जाते हैं तो जातक को अनेक प्रकार की व्याधियाँ व कष्ट झेलने पड़ते हैं।

कालांतर में पितृ या तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, या पृथ्वी लोक पर पुनः जन्म ले लेते हैं। यदि परिवार के सभी पितरों का पुनर्जन्म या मोक्ष हो गया हो तो कुछ समय के लिए उस परिवार के कोई पितृ नहीं होते। ऐसे में जातक सुख दुख अपनी कुंडली अनुसार प्राप्त करता है। अतः परिवार के सदस्यों को चाहिए कि जब तक वे पितृ लोक में हैं तब तक तर्पणादि से उनकी सेवा करें। यदि पितृ प्रसन्न रहते हैं तो आशीर्वाद स्वरूप जातक चहुमुखी प्रगति प्राप्त करता है।

पितृ अप्रसन्न, दुःखी एवं अतृप्त होते हैं यदि किसी पूर्वज की अंतिम इच्छा पूर्ण न हुई हो, या किसी के द्वारा श्रापित हों या असामयिक मृत्यु हो गई हो। पितृ योनि में रहते हुए भी उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। यदि परिवार के सदस्य तर्पणादि द्वारा भोजन नहीं देते हैं तो वे भूख से व्याकुल हो जाते हैं। पितृ विभिन्न प्रकार के कष्टों की अनुभूति करते हैं जब तक कि जातक पितरों की शांति हेतु पूजन-पाठ, पिंडदान, तर्पण आदि न करे।

पितृ दोष अपने कर्मों के कारण न हो करके, अपने माता-पिता या पूर्वजों के कर्मों के कारण होते हैं, क्योंकि यह दोष तो जातक के जन्म से जन्मपत्री में विद्यमान होता है जबकि कर्म तो जन्म के बाद ही बनते हैं। अतः पितृदोष ऐसा दोष है जिसका कोई कारण समझ में नहीं आता, केवल लक्षण दर्शित होते हैं। जन्मपत्री में भी शुभ दशा व गोचर के योग होते हुए भी हमें हमारे कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता, या घर में सदैव कलह, अशांति, धन की कमी व बीमारी लगी रहती है। संतान नहीं होती या संतान विक्षिप्त होती है, बच्चों के विवाह में अड़चन आती है या उनके विकास में अवरोध आते हैं। अतः जब भी किसी प्रकार की समस्या बार-बार आती है एवं कोई कारण नजर न आता हो तो हमें पितृ दोष की शांति करवानी चाहिए जब तक कि वातावरण और परिस्थितियां अनुकूल न हो जाएं।

पितृदोष लक्षण

1. परिवार में आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना होना।
2. आनुवांशिक बीमारी होना और लंबी अवधि तक बीमारी का चलना।
3. परिवार में शारीरिक रूप से विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म होना।
4. परिवार में बच्चों द्वारा असम्मान या प्रताड़ना का व्यवहार करना।
5. गर्भ धारण न होना या गर्भपात होना।
6. परिवार के किसी सदस्य का विवाह न होना।

7. परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा-फसाद होना।
8. कभी खत्म न होने वाली गरीबी परिवार में हो जाना।
9. बुरी आदतों की लत लग जाना।
10. परिवार में बार-बार केवल कन्या संतान का जन्म होना।
11. शिक्षा में बाधाएं आना।
12. स्वप्न में सांप दिखाई देना।
13. माथे पर गंदी करतूतों का कलंक लगना।
14. परिवार में किसी बुजुर्ग के बाल सफेद होने के पश्चात पीले होने लगना या काली खांसी होना।
15. परिवार के किसी सदस्य को स्वप्न में पूर्वज द्वारा खाना या कपड़े मांगते हुए दिखना।

पितृ की पहचान :

1. श्रीमद् भगवद् गीता के ग्यारहवें अध्याय का पाठ करें तो आपको कुछ दिनों में ही स्वप्न में पितृ दर्शन होंगे।
2. रात को सोने से पहले हाथ पैर धोकर अपने मन में अपने पितृ से प्रार्थना करें कि जो भी मेरे पितृ हैं वे मुझे दर्शन दें।
3. यदि आपका कोई कार्य अटक रहा है तो अपने पितृ को याद कीजिए और उन्हें कहें कि यदि आप हैं तो मेरा अमुक कार्य हो जाए। मैं आपके लिए शांति पाठ कराउंगा। आपकी ऐसी प्रार्थना से कार्य सिद्धि हो जाने पर यह प्रमाणित हो जाएगा कि आपको पितृ शांति करवानी चाहिए।

पितृ दोष उपाय :

1. श्राद्ध पक्ष में मृत्यु तिथि के दिन तर्पण व पिंडदान करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं व वस्त्र/दक्षिणा आदि दें।
2. यदि मृत्युतिथि न मालूम हो तो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन तर्पण व पिंडदानादि कर्म करें।
3. प्रत्येक अमावस्या विशेषतः सोमवती अमावस्या को पितृभोग दें। इस दिन गोबर के कंडे जलाकर उसपर खीर की आहुति दें। जल के छींटे देकर हाथ जोड़ें व पितृ को नमस्कार करें।
4. सूर्योदय के समय सूर्य को जल दें व गायत्री मंत्र का जप करें।
5. पीपल के पेड़ पर जल, पुष्प, दूध, गंगाजल व काले तिल चढ़ाकर पितृ को याद करें, माफी और आशीष मांगें।
6. रविवार के दिन गाय को गुड़ या गेहूं खिलाएं।
7. लाल किताब के अनुसार परिवार में जहां तक खून का रिश्ता है जैसे दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, ताया, बहन, बेटी, बुआ, भाई सबसे बराबर-बराबर धन, 1, 5 या दस रुपए लेकर मंदिर में दान करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है।
8. हरिवंश पुराण का श्रवण और गायत्री जप पितृ शांति के लिए लोकप्रसिद्ध है।
9. गया या त्र्यंबकेश्वर में त्रिपिंडी श्राद्ध या नन्दी श्राद्ध करें।
10. नारायणबलि पूजा करवाएं।

11. पितृ गायत्री का अनुष्ठान करवाएं -

ॐ देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च ।

नमः स्वाहायै स्वधायैः नित्यमेव नमो नमः ॥

12. पितृ दोष निवारण उपायों में गया में पिंडदान, गया श्राद्ध तथा पितृ भोग अर्पण आदि क्रियाएं करते हुए उपरोक्त पितृ गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए।

13. श्री कृष्ण मुखामृत गीता का पाठ करें।

पितृ पूजा के लिए आवश्यक निर्देश :

1. पितरों को मांस वाला भोजन न अर्पित करें।
2. पूजा के दिन स्वयं भी मांस भक्षण न करें।
3. पितृ पूजा में स्टील, लोहा, प्लास्टिक, शीशे के बर्तन का प्रयोग न करें। मिट्टी या पत्तों के बर्तनों का ही प्रयोग करें।
4. पितृ पूजा में घंटी न बजाएं।
5. पितृ पूजा करने वाले व्यक्ति की पूजा में व्यवधान न डालें।
6. बुजुर्गों का सम्मान करें।
7. पितरों के निमित्त किये जाने वाले गौ-दान से पितृ तृप्त होते हैं।
8. घर में पीने का पानी रखा जाता है उस स्थान पर विशेष पवित्रता रखें। यह स्थान पितृ का स्थान माना जाता है।
9. पितृ कर्म हेतु साल में 12 मृत्यु तिथि, 12 अमावस्या, 12 पूर्णिमा, 12 संक्रांति, 12 वैधृति योग, 24 एकादशी व श्राद्ध के 15 दिन मिलाकर कुल 99 दिन होते हैं।

आपकी कुण्डली में पितृदोष

- सूर्य पंचम भाव में स्थित है तथा उस पर शनि का प्रभाव है।
- पंचम भाव के स्वामी पर शनि का प्रभाव है।
- नवम भाव के स्वामी पर राहु का प्रभाव है।

आपकी कुण्डली में सूर्य और गुरु के कारण पितृदोष है।

आपकी कुण्डली में सूर्य पितृदोष कारक ग्रह है अतः पिता के पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है। इस दोष के निवारणार्थ गायत्री जप, सूर्योपासना, आदित्यहृदय स्तोत्र का पाठ, आक की समिधा से हवन करें। रविवार को गाय या बैल को गेहूँ और गुड़ खिलाएं।

आपकी कुण्डली में वृहस्पति पितृदोष कारक ग्रह है अतः दादाजी द्वारा किये गये पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है। इस दोष के निवारणार्थ आप विद्वानजनों, वृद्ध ब्राह्मण और पति को दान दें। विद्यालय में पुस्तकों का दान करें।

आपकी कुण्डली में पितृदोष का योग है परंतु यदि आपको अपने जीवन में उपरोक्त वर्णित पितृदोष लक्षण में से किसी प्रकार का कष्ट या परेशानी की अनुभूति नहीं हो रही है तो

ShriSidhesavarii jyotish kendra

Panjabi colony shamgarh dist mandaur M. P. 458883

9669569563


ramchranvyass5@gmail.com

आपको पितृदोष संबंधी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। संभव है कि किसी शुभकार्य के कारण आपके पितृ प्रसन्न हो गए हों व आपको उनकी कृपा प्राप्त हो रही हो या वे मोक्ष को प्राप्त हो गए हों।

नोट :

त्रिपिण्डी श्राद्ध एवं नारायण नाग बली पितृदोष के लिए मुख्य उपाय हैं। यह स्रयंबकेश्वर में विशेष रूप से कराये जाते हैं। त्रिपिण्डी श्राद्ध में आटे को पानी में मांढ़ कर पुतले के रूप में पूर्वजों के प्रतीकात्मक पिंड बना लिये जाते हैं, उन पर मंत्रों का पाठ किया जाता है। अंत में अस्थि विसर्जन के समान उनको जल में प्रवाह कर दिया जाता है।

नारायण नागबलि, पूर्वजों के मोक्ष व उनकी इच्छा पूर्ति के लिए कराया जाता है। इसमें दो दिन श्मशान क्रिया होती है व तीसरे दिन मांगलिक पूजा की जाती है। यदि पितृदोष के कारण संतान बाधा या विवाह बाधा आदि होती है तो इस उपाय के पश्चात जातक बाधामुक्त हो जाता है और काम स्वतः बनने लगते हैं।



ग्रह फल

सूर्य

पंचमभाव में सूर्य हो तो जातक अल्पसन्तितिवान्, बुद्धिमान्, सदाचारी, रोगी, दुखी, शीघ्र क्रोधी एवं वंचक होता है।

सिंह राशि में रवि हो तो जातक सत्संगी पुरुषार्थी, योगाभ्यासी, वनविहारी, क्रोधी, गम्भीर, उत्साही, तेजस्वी एवं धैर्यशाली होता है।

आपके जन्म समय में सूर्य की स्थिति पंचम भाव में है। अतः पिता के आप प्रिय रहेंगे एवं उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। साथ ही उनकी आयु भी दीर्घ होगी। धन सम्पत्ति से वे सर्वदा सुसम्पन्न रहेंगे एवं जीवन में समस्त शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों में आपकी यथाशक्ति सहायता करते रहेंगे। आपकी सन्तति के प्रति भी वे स्नेहशील रहेंगे तथा उनके पालन में अपनी पूर्ण रुचि प्रदर्शित करेंगे।

आपके मन में भी उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा एवं आदर का भाव रहेगा एवं उनकी आज्ञा का पालन भी आप करते रहेंगे। आपके परस्पर संबंध भी मधुर रहेंगे लेकिन यदा कदा आपसी मतभेदों में विभिन्नता होने से संबंधों में कटुता भी आएगी परन्तु कुछ समय बाद सब कुछ स्वतः ही ठीक हो जाएगा। साथ ही जीवन में आप उनका पूरा ध्यान रखेंगे एवं उनकी आर्थिक तथा अन्य सहायता करने के लिए भी उद्यत रहेंगे एवं उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने देंगे।

चन्द्र

नवेंभाव में चन्द्रमा हो तो जातक विद्वान्, विद्याप्रिय, चंचल, न्यायी, प्रवास-प्रिय, कार्यशील, धर्मात्मा. सन्तति-सम्पत्तियुक्त सुखी, साहसी एवं अल्पभातृवान् होता है।

धनु राशि में चन्द्रमा हो तो जातक वक्त, सुन्दर, शिल्पज्ञ, शत्रुविनाशक उच्च बौद्धिक स्तर वाला, सुखी विवाहित जीवन, विरासत में धन सम्पत्ति पाने वाला, साहित्य के प्रति रुचि का दिखावा करने वाला एवं लेखक होता है।

आपके जन्म काल में चन्द्रमा की स्थिति नवम भाव में है। अतः माता के आप प्रिय रहेंगे। आपके शुभ प्रभाव से उनका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा एवं आयु भी दीर्घ होगी। आपकी सुख संसाधनों के प्रति वे चिन्तित रहेंगी तथा प्रयत्न पूर्वक आपको इन सुख संसाधनों का उपभोग करायेंगी। साथ ही आपके भाग्य की उन्नति में भी उनका विशेष योगदान रहेगा। इसके अतिरिक्त उन्हीं की सहायता एवं सहयोग से आप आवश्यक सुखसंसाधनों को भी प्राप्त करेंगे।

आप भी उनके आज्ञाकारी होंगे तथा पूर्ण रूप से उनका हार्दिक सम्मान करेंगे। जीवन में उनको पूर्ण सुख सुविधा प्रदान करने के लिए आप यत्नशील रहेंगे। आपके परस्पर संबंध भी मधुर होंगे तथा यदा कदा ही कोई मतभेद रहेंगे अन्यथा एक दूसरे से सहमत ही रहेंगे। इस प्रकार आप एक दूसरे के लिए सामान्य शुभ रहेंगे।

मंगल

तृतीयभाव में मंगल हो तो जातक कटुभाष, भृत्कष्टकारक, प्रदीप्त जठराग्निवाला, बलवान्, बन्धुहीन, सर्वगुणी, साहसी, धैर्यवान् प्रसिद्ध एवं शूरवीर होता है।

मिथुन राशि में मंगल हो तो जातक शिल्पकार, परदेशवासी, कार्यदक्ष, सुखी, जनहितैषी, विद्वान्, बलवान् शरीर, कवि, संगीतकार, नीतिज्ञ, कुशाबुद्धिवाला एवं चतुर होता है।

आपके जन्म समय में मंगल तृतीय भाव में स्थित है अतः आपके भाई बहिनों का स्वास्थ्य मध्यम रहेगा तथा यदा कदा वे शारीरिक रूप से व्याकुलता की अनुभूति करेंगे। शक्ति, साहस तथा पराक्रम से वे युक्त रहेंगे। साथ ही जीवन में सभी शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों में आपको यथायोग्य सहयोग प्रदान करते रहेंगे। धन धान्य से भी वे युक्त रहेंगे एवं समयानुसार आपकी आर्थिक सहयोग भी प्रदान करेंगे। साथ ही सुख दुःख में आपकी पूरी सहायता करेंगे।

आपके हृदय में भी उनके प्रति पूर्ण स्नेह की भावना रहेगी एवं सर्वदा विषम परिस्थितियों में भी उनका पूर्ण सहयोग करेंगे। आप के परस्पर संबंध मधुर होंगे परन्तु यदा कदा मतवैमिन्यता के कारण उनमें कटुता या तनाव भी उत्पन्न होगा परन्तु वह अल्प समय के लिए रहेगा कुछ समय बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। साथ ही आप सुख दुःख में भी उनको अपनी ओर से पूर्ण सहायता प्रदान करेंगे। इस प्रकार आप भाई बहिनों के सुख मध्यम रूप से ही अर्जित कर सकेंगे।

बुध

षष्ठभाव में बुध हो तो जातक विवेकी, कलहप्रिय, वादी, रोगी, आलसी, अभिमानी, परिश्रमी, कामी, दुर्बल एवं स्त्रीप्रिय होता है।

कन्या राशि में बुध हो तो जातक वक्ता, कवि, साहित्यिक, लेखक, सम्पादक, ज्योतिषी, खगोलशास्त्री, गणितज्ञ, अध्यापक, उदार, सुखी एवं अच्छा चरित्र वाला होता है।

गुरु

सप्तमभाव में गुरु हो तो जातक सुन्दर, धैर्यवान्, भाग्यवान्, प्रवासी, सन्तोषी, स्त्रीप्रेमी, परस्त्रीरत, ज्योतिषी, नम्र, विद्वान् वक्ता एवं प्रधान होता है।

तुला राशि में गुरु हो तो जातक सुन्दर, उदार, बली, योग्य धार्मिक, प्रवृत्ति, निष्पक्ष, बुद्धिमान्, व्यापार कुशल, कवि, लेखक, सम्पादक, बहुपुत्रवान् एवं सुखी होता है।

शुक्र

सप्तमभाव में शुक्र हो तो जातक लोकप्रिय, धनिक, चिन्तित, विवाह के बाद भाग्योदय, साधुप्रेमी, स्त्री से सुख, कामी, भाग्यवान् गानप्रिय, विलासी, अल्पव्यभिचारी

चंचल एवं उदार होता है।

तुला राशि में शुक हो तो जातक विलासी, कलानिपुण, प्रवासी, यशस्वी, कार्यदक्ष, कुशाबुद्धि, उदार, दार्शनिक, सुन्दर, सुखी विवाहित जीवन, अभिमानी, बौद्धिक कामों में रुचि, कविता और उपन्यास लिखने में रुचि एवं संतुलित स्वभाव होता है।

शनि

ग्यारहवें भाव में शनि हो तो जातक बलवान् विद्वान, दीर्घायु, शिल्पी, सुखी, चंचल, क्रोधी, योगाभ्यासी, नीतिवान् परिश्रमी, व्यवसायी, पुत्रहीन, कन्याप्रज्ञ एवं रोगहीन होता है।

कुम्भ राशि में शनि हो तो जातक नीतिदक्ष, कुशा बुद्धि, शक्तिशाली शत्रु, योग्य, सुखी, व्यसनी, नास्तिक एवं परिश्रमी होता है।

राहु

सप्तम भाव में राहु हो तो चतुर, लोभी, दुराचारी, दुष्कर्मी वातरोगजनक, भ्रमणशील, व्यापार से हानिदायक एवं स्त्रीनाशक होता है।

तुला राशि में राहु हो तो जातक अल्पायु, दाँतों के रोग, विरासत में धन पाने वाला एवं कार्य कुशल होता है।

केतु

लग्न (प्रथम) में केतु हो तो जातक चंचल मूर्ख दुराचारी, भीरु तथा वृश्चिक राशि में हो तो सुखकारक, धनी एवं परिश्रमी होता है।

मेष राशि में केतु हो तो जातक चंचल, बहुभाषी एवं सुखी होता है।

दशा विश्लेषण

**महादशा :- चन्द्र
(06/08/2021 - 07/08/2031)**

चंद्र की महादशा की अवधि 10 वर्ष है। आपकी कुंडली में यह 06/08/2021 को आरंभ और 07/08/2031 को समाप्त होगी।

चन्द्र नवम् भाव में अवस्थित है। अतः अपने दशा काल में आपको उत्तम स्वास्थ्य, धन तथा समृद्धि प्रदान करेगा और आप उदार होंगे। आपका झुकाव ईश्वर की ओर होगा क्योंकि नवम भाव विश्वास, भाग्य, धार्मिक तथा दार्शनिक लाभ, अन्तर्ज्ञान, बलिदान, दान-पुण्य के कार्य, स्वप्न, दृष्टि, लम्बी यात्रा, उच्च शिक्षा तथा विदेश यात्रा का सूचक है।

स्वास्थ्य :

महादशा का स्वामी चन्द्र नवम् भाव में अवस्थित है। यह अपने भाव की रक्षा का रहा है और कोई अशुभ शक्ति इसका नाश नहीं कर सकती। इस दशा-काल में किसी बड़ी बीमारी या दुर्घटना की सम्भावना नहीं है और एक सुखमय तथा क्रियाशील जीवन बीतेगा। आप सामान्य ढंग से अपने कर्तव्यों तथा दैनिक कार्यों का सम्पादन करेंगे।

अर्थ और सम्पत्ति :

इस दशा काल में आपकी आर्थिक स्थिति सृष्ट होगी और आप उसका विस्तार करेंगे। आप पिता की सहायता तथा समर्थन से, जो स्वयं भी समृद्धिशाली होंगे, अपनी संपत्तियों की वृद्धि करेंगे। इस अवधि में आपकी विदेश-यात्रा की सम्भावनाएं हैं और अपनी सम्पत्ति का विस्तार करने के अवसर आपको मिलेंगे।

व्यवसाय :

एक व्यवसायी के रूप में आप एक-सुखी व्यक्ति होंगे और इस अवधि में सन्तुष्ट रहेंगे। यदि आप सेवारत हैं तो जीवन में उन्नति के पर्याप्त अवसर प्राप्त होंगे और यदि व्यवसायी हैं तो न्यायप्रिय और धर्मपरायण होने के कारण आप अपने व्यवसाय में उन्नति करेंगे और आपके सहकर्मी और श्रेष्ठ तथा अधीनस्थ व्यक्ति आपकी सराहना करेंगे। व्यापार के क्रम में आप विदेश-यात्रा का सकते हैं और वहां भी आप ख्याति अर्जित करेंगे।

पारिवारिक जीवन :

आपका पारिवारिक जीवन सद्भावपूर्ण व शांतिपूर्ण होगा। आपकी पत्नी आपका सहयोग तथा सहायता करेंगी। आपके बच्चे आपके आज्ञाकारी रहेंगे और माता-पिता, खासकर पिता, की आपके पारिवारिक जीवन को सुखमय व उपयोगी बनाने में भूमिका अहम होगी।

शिक्षा/प्रशिक्षण :

आप की धार्मिक तथा पौराणिक शिक्षा में रुचि होगी क्योंकि आपका झुकाव ईश्वर की ओर होगा।

ShriSidhesavarii jyotish kendra

Panjabi colony shamgarh dist mandasaur M. P. 458883

9669569563

ramchranvyass5gmail.com

अंतर्दशा :- चन्द्र - शनि
(06/11/2025 - 07/06/2027)

चंद्र महादशा की अवधि 10 वर्ष है। इस महादशा में शनि की अंतर्दशा 1 वर्ष 7 मास रहेगी। आपके लिए चंद्र महादशा 06/08/2021 को प्रारंभ हुई और 07/08/2031 को समाप्त होगी। शनि अंतर्दशा 06/11/2025 को प्रारंभ होकर 07/06/2027 को समाप्त होगी।

शनि आपकी जन्मपत्रिका के एकादश भाव में स्थित है। एकादश भाव मित्रगण, समाज, महत्वाकांक्षा, इच्छाएं और उनकी पूर्ति, उद्यम में सफलता, धनलाभ, बड़े भाई, भाग्योदय और टखनों का परिचायक है। एकादश में स्थित होकर शनि आपकी कुंडली के लग्न, 5 और 8 भावों पर दृष्टि द्वारा अपना प्रभाव डाल रहा है।

इस अवधि में आपके बहुत से कर्मचारी और मातहत होंगे। मित्रों की संख्या कम होगी। आय संभवतः सरकारी माध्यम से होगी। राजनीति में सफलता और सम्मान प्राप्त हो सकते हैं। जीवन स्वस्थ, प्रसन्नतायुक्त और दीर्घायु होगा। शनि शक्तिशाली ग्रह है और जातक के धैर्य और कर्मठता की परीक्षा लेता है। भाग्योदय में देर हो सकती है मगर होता जरूर है।

शुभत्व में वृद्धि के लिए निम्न उपाय करें :

1. नदी, तालाब, घर के मछलीघर आदि की मछलियों को आटे की गोलियां दें।
2. भोजन का पहला कौर गाय को दें।
3. पीपल को जल दें।

अंतर्दशा :- चन्द्र - बुध
(07/06/2027 - 05/11/2028)

चंद्र महादशा की अवधि 10 वर्ष है। इस महादशा में बुध की अंतर्दशा 1 वर्ष 5 मास रहेगी।

आपके लिए चंद्र महादशा 06/08/2021 को प्रारंभ हुई थी और 07/08/2031 को समाप्त होगी। इसमें बुध की अंतर्दशा 07/06/2027 को प्रारंभ होकर 05/11/2028 को समाप्त होगी।

बुध आपकी जन्मपत्रिका के छठे भाव में स्थित है। छठा भाव बीमारी, सुश्रुषा, मातहत या सेवक, कर्ज, शत्रु, कंजूसी और अतिकष्ट का द्योतक है। छठे भाव में स्थित होकर बुध कुंडली के द्वादश भाव पर दृष्टि डाल रहा है और उसके कारकत्व पर प्रभावी हो रहा है। इस अवधि में आप झगड़ालू और दिखावापसंद हो सकते हैं, लेकिन समाज में सम्मान होगा। आपकी संतान की शिक्षा पर कुप्रभाव संभव है क्योंकि आप आलसी और कटुवचन बोलने वाले हो सकते हैं। मीठी वाणी बोलना लाभदायक रहेगा। वासनाओं और आमोद-प्रमोद पर नियंत्रण रखें अन्यथा मानसिक रोग हो सकता है।

अरिष्ट से बचाव के लिए बुध वैदिक मंत्र के 9000 जाप करें।

ShriSidhesavarii jyottishe kendra

Panjabi colony shamgarh dist mandasaur M. P. 458883

9669569563

ramchranvyass5gmail. com

**अंतर्दशा :- चन्द्र - केतु
(05/11/2028 - 06/06/2029)**

चंद्रमा की महादशा की अवधि 10 वर्ष है। इसके अंतर्गत केतु अंतर्दशा 7 मास की रहेगी। आपके लिए चंद्र महादशा 06/08/2021 को प्रारंभ हुई ओर 07/08/2031 को समाप्त होगी। केतु अंतर्दशा 05/11/2028 को प्रारंभ होकर 06/06/2029 को समाप्त होगी।

केतु आपकी जन्मपत्रिका के प्रथम भाव में स्थित है। प्रथम भाव शारीरिक बनावट, आकृति, स्वास्थ्य, जन्मजात स्वभाव और आदतें, सम्मान, गरिमा, सामान्य शुभत्व, चेहरे का ऊपरी भाग, आयु और जीवन की रूपरेखा आदि का परिचायक है। लग्न में स्थित होकर केतु आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर दृष्टि द्वारा उसे प्रभावित कर रहा है।

इस अंतर्दशा में आप ज्वर या शरीर की दुर्बलता से पीड़ित हो सकते हैं। अधिक गर्मी से फोड़े-फुंसी आदि हो सकते हैं। आपकी साख को धक्का लग सकता है। मष्तिष्क बेचैन रह सकता है। विचारों में अस्थिरता रहेगी। उत्तेजित होने से बचें अन्यथा विवाहित जीवन में विवाद हो सकते हैं।

अरिष्ट से बचाव के लिए केतु के तांत्रिक मंत्र के 72,000 जाप करें।

**अंतर्दशा :- चन्द्र - शुक्र
(06/06/2029 - 05/02/2031)**

चंद्र की महादशा की अवधि 10 वर्ष है। आपके लिए यह 06/08/2021 को प्रारंभ होकर 07/08/2031 को समाप्त होगी।

इस महादशा में शुक्र की अंतर्दशा 1 वर्ष 8 मास रहेगी। आपके लिए यह 06/06/2029 को प्रारंभ होकर 05/02/2031 को समाप्त होगी।

शुक्र आपकी जन्मपत्रिका के सप्तम भाव में स्थित है। सप्तम भाव लौकिक संबंध, जीवनसाथी, व्यापार में साझेदार, मुकदमे, विदेश में प्रभाव ओर जीवन को खतरों का परिचायक है। शुक्र शुभ ग्रह है। सप्तम भाव में स्थित होकर शुक्र आपकी कुंडली में लग्न पर दृष्टि डाल रहा है और उसके शुभत्व में वृद्धि कर रहा है।

इस अवधि में आपकी रतिशक्ति प्रबल रहेगी। विपरीत लिंग के व्यक्तियों में लोकप्रिय रहेंगे। गुप्त रोगों से बचाव करें।

शुभत्व में वृद्धि के लिए शुक्र के वैदिक मंत्र के 16000 जाप करें।